



12 दिसम्बर 2022

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट



Moneywise. Be wise.



## प्रमुख खबरें

- आरबीआई ने पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 13.5 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
- मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई ने रेपो दर को 35 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया।
- विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को पहले के 6.5 प्रतिशत से संशोधित कर 6.9 प्रतिशत कर दिया।
- भारतीय चीनी मिल संगठन के अनुसार मौजूदा बाजार वर्ष 2022-23 में 30 नवंबर तक चीनी का उत्पादन 47.9 लाख टन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में यह 47.2 लाख टन हुआ था।
- विश्व इस्पात संघ के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के कारण इस वर्ष

वैश्विक स्तर पर स्टील की मांग 2.3% घटकर 1.797 बिलियन टन रह जाएगी।

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान रबी सीजन में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अधिक बुवाई क्षेत्र के कारण गेहूँ का रकबा 25 प्रतिशत बढ़कर 255.76 लाख हेक्टेयर हो गया है।
- सरकार ने वर्ष 2022-23 में अब तक मूल्य समर्थन योजना के तहत 24,000 टन मूंग की खरीद की है।
- सरकार ने जैविक गैर-बासमती चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है क्योंकि घरेलू आपूर्ति बढ़ी है और कीमतों में भी नरमी देखी गई है।
- पर्थ टकसाल ने पिछले महीने 114,304 औंस के विभिन्न स्वर्ण उत्पादों की बिक्री की जो अक्टूबर के रिकॉर्ड स्तर से 38% कम है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	02.12.22	08.12.22	बदलाव (%)
स्टील	45090.00	46700.00	3.57%
जीरा	25120.00	25995.00	3.48%
धान	3913.00	4047.00	3.42%
गुड़	1143.50	1158.00	1.27%
बाजरा	2125.00	2144.00	0.89%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	02.12.22	08.12.22	बदलाव (%)
निकल	2256.00	2385.00	5.72%
तांबा	695.50	707.90	1.78%
मेंथा ऑयल	950.10	964.40	1.51%
सोना	53265.00	54051.00	1.48%
सोना एम	53346.00	53741.00	0.74%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	02.12.22	08.12.22	बदलाव (%)
धनिया	9782.00	9300.00	-4.93%
सीसेम सीड	17255.00	16690.00	-3.27%
कॉटन	33010.00	32060.00	-2.88%
कपास	1688.00	1643.00	-2.67%
जौ	3230.50	3181.00	-1.53%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	02.12.22	08.12.22	बदलाव (%)
कच्चा तेल	6548.00	5968.00	-8.86%
नेचुरल गैस	523.90	503.70	-3.86%
कॉटन	31900.00	31210.00	-2.16%

## साप्ताहिक समीक्षा

मंदी की खबरों के बीच डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी के कारण सीआरबी में इंडेक्स गिरावट देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही। मांग में सुस्ती के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई, लेकिन गुरुवार को इसमें मामूली उछाल देखा गया, क्योंकि आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिकी भंडार में अपेक्षा से अधिक कमी दर्ज की गई है। फिर भी मंदी की व्यापक आशंकाओं ने इस सप्ताह तेज नुकसान के बाद कच्चे तेल के बाजारों के लिए आउटलुक को कमजोर कर दिया। दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक चीन ने इस सप्ताह अधिक कोविड संबंधित प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की- एक ऐसा कदम, जिससे अंततः वैश्विक स्तर पर तेल की मांग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। गैसोलीन और डिस्टिलेट भंडार, जो अमेरिकी तेल की खपत का एक प्रमुख चालक है, में अपेक्षा से अधिक वृद्धि के कारण भी ईंधन को लेकर उपभोक्ता मांग के कम होने से चिंता बढ़ गई। बेस मेटल्स की कीमतों में सीमित बढ़त दर्ज की गई क्योंकि वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास के लिए एक कमजोर आउटलुक के बीच डॉलर में बढ़ोतरी हुई, लेकिन चीन की ओर से मांग में सुधार की उम्मीदों ने गिरावट को सीमित कर दिया। चीन में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील ने बेहतर मांग की उम्मीद जगाई और कीमतों में नुकसान को सीमित किया। चीन से अपेक्षित मांग के बीच कम उत्पादन के कारण जिंक और तांबे की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोने की कीमतें गुरुवार को प्रमुख स्तरों से नीचे रहीं, लेकिन व्यापक धातु बाजार की तुलना में कुछ बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि वैश्विक मंदी की बढ़ती आशंकाओं ने सोने में सुरक्षित निवेश में खरीदारी को बढ़ावा मिला।

कृषि कमोडिटीज में, मसालों में जीरे की चमक बरकरार रही जबकि हल्दी और धनिया की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। जीरा की कीमतों में जोरदार तेजी देखी गई। गुजरात में जीरा की बुवाई के रकबे में गिरावट के कारण कमजोर उत्पादन संभावनाओं के कारण कीमतों में मजबूती आई। 5 दिसंबर 22 तक गुजरात में पिछले वर्ष के 1.71 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 1.44 लाख हेक्टेयर में जीरे की बुवाई दर्ज की गई, जो साल-दर-साल 15% कम है। चीन की ओर से बेहतर मांग से भी सेंटिमेंट में सुधार हुआ। वर्ष 2022 में गुजरात में धनिया के तहत बुआई क्षेत्र में तेजी से उछाल आया, जो पिछले वर्ष के 86 हजार हेक्टेयर की तुलना में 5 दिसंबर को 1.75 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 103% अधिक है। फसल की सामान्य प्रगति और आगामी सीजन के लिए उपज की बेहतर संभावनाओं ने कीमतों पर दबाव डाला। ग्वार काउंटर में प्रभावशाली खरीदारी देखने को मिली। बाजार में नए सिरे से खरीदारी के कारण कीमतों में सुधार हो रहा है। बाजार में आपूर्ति सामान्य से कम रहने से कीमतों को समर्थन मिला। कॉटन की कीमतों में मामूली बढ़त देखी गई क्योंकि आवक कम हो रही क्योंकि किसान कीमतों में अधिक बढ़ोतरी को लेकर आशावादी हैं। 2022-23 में कपास की खपत पिछले वर्ष की 318 लाख गांठ की तुलना में 300.00 लाख गांठ होने का अनुमान है। अरंडी की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई लेकिन अरंडी तेल की सुस्त मांग के कारण इसकी कुछ बढ़त समाप्त हो गई। अरंडी तेल के कम निर्यात से निकट भविष्य में कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है। लेकिन कमजोर उत्पादन संभावना के कारण नुकसान सीमित रहने की संभावना है। मिलें और स्टॉकिस्टों के पास काफी कम स्टॉक हैं जिससे कीमतों में बड़ी गिरावट रोक लगी रह सकती है।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	02.12.22	08.12.22	(%)
जौ	जयपुर	3220.00	3173.90	-1.43%
चना	दिल्ली	5107.45	5100.85	-0.13%
धनिया	कोटा	10031.30	9666.85	-3.63%
कूड पॉम ऑयल	कांडला	853.80	853.45	-0.04%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1156.00	1155.00	-0.09%
ग्वारसीड	जोधपुर	5950.00	6139.00	3.18%
ग्वारगम	जोधपुर	12800.00	13192.00	3.06%
जीरा	ऊंझा	24917.50	25361.10	1.78%
सरसों	जयपुर	6687.75	6697.35	0.14%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1250.00	1232.50	-1.40%
सोयाबीन	इंदौर	5483.75	5611.60	2.33%
हल्दी	निजामाबाद	7377.25	7266.65	-1.50%
गेहूं	दिल्ली	2888.55	2895.35	0.24%
कॉटन	कडी	32747.45	31791.35	-2.92%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	3060.15	2923.60	-4.46%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	02.12.22	08.12.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2545.50	2503.00	-1.67%
तांबा	LME	नकद	8450.00	8543.00	1.10%
लेड	LME	नकद	2202.50	2212.00	0.43%
निकल	LME	नकद	28862.00	29725.00	2.99%
जिंक	LME	नकद	3079.00	3236.50	5.12%
सोना	COMEX	फरवरी	1802.60	1801.00	-0.09%
चांदी	COMEX	मार्च	23.09	23.25	0.69%
लाइट कूड	NYMEX	दिसम्बर	79.98	71.46	-10.65%
नेचुरल गैस	NYMEX	दिसम्बर	6.28	5.88	-6.37%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	02.12.22	08.12.22	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	जनवरी	14.38	14.86	3.34%
सोया तेल	CBOT	जनवरी	65.22	61.31	-6.00%
कॉटन	ICE	मार्च	83.20	80.85	-2.82%
सीपीओ	BMD	फरवरी	3,952.00	3,943.00	-0.23%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	01.12.22 क्वांटिटी	08.12.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	881	881	0
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	13038	13479	441
धनिया	मी.टन	1938	2107	169
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	0	0	0
ग्वारगम	मी.टन	13044	13838	794
ग्वारसीड	मी.टन	11690	10291	-1399
जीरा	मी.टन	2797	3150	353
मक्का	मी.टन	1073	1226	153
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	738	648	-90

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	02.12.22 क्वांटिटी	08.12.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	3369	2711	-659
तांबा	मी.टन	3631641	3563650	-67991
सोना	किग्रा	527	470	-57
सोना मिनी	किग्रा	13560	13472	-88
सोना गिनी	किग्रा	234600	141000	-93600
लेड	किग्रा	413	413	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	164883	162564	-2320
चांदी एम	किग्रा	40947	40936	-11
जिंक	मी.टन	2841	2659	-182

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 02.12.22	स्टॉक की स्थिति 08.12.22	अंतर
एल्युमीनियम	499150	483675	-15475.00
तांबा	88275	88475	200.00
निकल	53124	53652	528.00
लेड	23750	23750	0.00
जिंक	41225	38575	-2650.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	जनवरी	26250.00	29.11.22	तेजी	24600.00	25100.00	-	25000.00
NCDEX	हल्दी	जनवरी	7940.00	22.11.22	मंदी	7400.00	-	8150.00	8200.00
NCDEX	ग्वारसीड	जनवरी	6088.00	10.11.22	तेजी	5183.00	5830.00	-	5800.00
NCDEX	कैस्टरसीड	जनवरी	7486.00	14.07.22	तेजी	7270.00	7230.00	-	7200.00
NCDEX	स्टील लांग	दिसम्बर	46700.00	25.08.2022	मंदी	50200.00	-	48300.00	48500.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	जनवरी	2641.00	03.10.22	तेजी	2300.00	2420.00	-	2400.00
MCX	कॉटन	दिसम्बर	31210.00	10.11.22	तेजी	33140.00	30200.00	-	30000.00
MCX	मेंथा ऑयल	दिसम्बर	964.40	23.05.22	मंदी	1080.00	-	987.00	990.00
MCX	बुलडेक्स	फरवरी	15076.00	10.11.22	तेजी	14545.00	14850.00	-	14800.00
MCX	चांदी	मार्च	67034.00	10.11.22	तेजी	61911.00	64300.00	-	64000.00
MCX	सोना	फरवरी	54051.00	10.11.22	तेजी	52109.00	53100.00	-	53000.00
MCX	मेटलडेक्स	दिसम्बर	18890.00	23.06.22	साइडवेज	1796.30	18200.00	19500.00	-
MCX	तांबा	दिसम्बर	707.90	30.11.22	तेजी	680.00	675.00	-	670.00
MCX	लेड	दिसम्बर	185.95	30.11.22	तेजी	184.00	179.00	-	178.00
MCX	जिंक	दिसम्बर	284.60	30.11.22	तेजी	265.00	268.00	-	265.00
MCX	एल्युमिनियम	दिसम्बर	215.45	30.11.22	तेजी	208.00	207.00	-	205.00
MCX	कच्चा तेल	दिसम्बर	5968.00	14.11.22	मंदी	7250.00	-	6250.00	6300.00
MCX	नेचुरल गैस	दिसम्बर	503.70	30.11.22	मंदी	580.00	-	535.00	540.00

\*08/12/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पकड़ती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### कच्चा तेल ( दिसम्बर )एमसीएक्स



### कच्चा तेल ( दिसम्बर )एमसीएक्स

उच्चस्तर: 7605.00

निचला स्तर: 6052.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 08 दिसम्बर 2022 को 5968.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6423.19 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 30.454 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6350.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 5500.00 रु के टारगेट के लिए 6100.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### ग्वार सीड ( जनवरी ) एनसीडीईएक्स



### ग्वार सीड ( जनवरी ) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 6473

निचला स्तर: 4562

एनसीडीईएक्स में ग्वार सीड (जनवरी) कॉन्ट्रैक्ट 08 दिसम्बर 2022 को 6088.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 5878.59 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 59.472 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

5800.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 6400.00 रु के टारगेट के लिए 5950.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### जिंक ( दिसम्बर ) एमसीएक्स



### जिंक ( दिसम्बर ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 287.45

निचला स्तर: 250.25

एमसीएक्स में जिंक (दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 08 दिसम्बर 2022 को 284.60 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 273.08 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 66.254 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

268.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 300.00 रु के टारगेट के लिए 277.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

पिछले सप्ताह हल्दी की कीमतों में तेजी से सुधार देखा गया, जो मुख्य रूप से कीमतों में हाल के निचले स्तर पर उभरती मांग के कारण हुआ। आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान के बाद फसल के नुकसान की बढ़ती आशंका के कारण कीमतों में तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने में मदद की। स्थानीय बाजार में सक्रिय मांग के कारण आने वाले सप्ताह में भी हल्दी वायदा की कीमतों में तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। मजबूत निर्यात मांग और शादी विवाह के मौसम की बढ़ती मांग के कारण हल्दी की कीमतें अपने मौसमी रुझान के अनुरूप रहेंगी। भारत ने सितंबर-22 में लगभग 14 हजार टन हल्दी का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में 12.59 हजार टन निर्यात हुआ था। हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतों को 7750 पर समर्थन रहने की संभावना है और निकट भविष्य में 8260 की ओर बढ़ सकती है।

आपूर्ति में कमी के कारण जीरा (जनवरी) वायदा की कीमतों में पिछले सप्ताह तेज रिकवरी देखी गई। खाड़ी देशों और चीन से उभरती निर्यात मांग के कारण कीमतों को मदद मिली। आगामी सीजन में कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण भी जीरे की कीमतों में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। गुजरात में 5 दिसंबर 22 तक जीरे की बुवाई पिछले वर्ष के 1.71 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 1.44 लाख हेक्टेयर में की गई है जो साल-दर-साल 15% कम है। कीमतों में अधिक वृद्धि की उम्मीद में किसान और स्टॉकिस्ट स्टॉक जारी करने से हिचक रहे हैं। आगे शादी-ब्याह की मांग को देखते हुए खरीदारी गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं, जिससे कीमतों की तेजी को समर्थन मिलेगा। जीरा की कीमतों को 25600-26400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बेहतर आपूर्ति की संभावना धनिया (जनवरी) वायदा की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ साइडवेज व्यापार करने की उम्मीद है। बाजार की नजर पूरे भारत में सामान्य फसल स्थिति द्वारा समर्थित बेहतर उत्पादन अनुमान के संकेतों पर रहने की संभावना है। 5 दिसंबर तक गुजरात में धनिया के तहत बुआई क्षेत्र में तेजी से उछाल आया है जो पिछले वर्ष के 86 हजार हेक्टेयर की तुलना में 1.75 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है जो कि वर्ष-दर-वर्ष 103% अधिक है। बढ़ते आयात के कारण प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति पर्याप्त है जो खरीदारों को थोक खरीद से दूर रखे हुए है। भारत ने जनवरी-22 से सितंबर-22 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के 4.7 हजार टन की तुलना में लगभग 22.4 हजार टन धनिया का आयात किया है। धनिया की कीमतों को 9500 पर रेजिस्टेंस के साथ निकट अवधि में 9000 तक लुढ़कने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

भारतीय कपास की निर्यात मांग सुस्त रही है क्योंकि भारतीय कपास की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में 14% अधिक हैं। घरेलू मिलें भी कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रही हैं और आवश्यकतानुसार ही खरीदारी कर रही हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने केंद्र सरकार से कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क वापस लेने का आग्रह किया है ताकि कपड़ा उद्योग को किफायती कीमतों पर कच्चे माल, या कताई की गई कपास तक पहुंचने में मदद मिल सके। भारत में सूती धागे के बढ़े हुए आयात ने भी मांग की संभावनाओं को कम कर दिया क्योंकि मिलों ने उच्च घरेलू कीमत के कारण आयातित सूती धागे को तरजीह दी। कम आपूर्ति के कारण नुकसान सीमित होगा क्योंकि इस सीजन में कपास की आवक सामान्य से कम है क्योंकि किसान आने वाले भविष्य में बेहतर कीमत की उम्मीद में अपनी उपज जारी नहीं कर रहे हैं। कीमतों को 32100 पर रेजिस्टेंस के साथ 30400 तक गिरावट की उम्मीद है।

हाजिर बाजारों में सक्रिय मांग के कारण कॉटनसीडऑयल केक (जनवरी) वायदा की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। आपूर्ति की कमी के कारण हाजिर मांग अच्छी है क्योंकि किसान बेहतर कीमत संभावना की उम्मीद में कपास जारी नहीं कर रहे हैं। कॉटन सीडऑयल केक के कम उत्पादन के कारण स्टॉकिस्ट सक्रिय हैं जबकि कपास की आवक धीमी रही है। कीमतों को 2550 के स्तर पर सपोर्ट रहने की संभावना है और आने वाले सप्ताह में यह 2850 की ओर बढ़ सकती है।

ग्वारसीड (जनवरी) वायदा की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। कीमतों में जोरदार तेजी के बाद किसान अपना स्टॉक जारी कर रहे हैं जिससे निकट भविष्य में ग्वार की कीमतों में गिरावट आएगी। और कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी के साथ ग्वारगम की घटती मांग और वैकल्पिक फीडमिल की बढ़ती उपलब्धता से कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है। निकट भविष्य में ग्वारसीड की कीमतों को 5600-6200 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

मेंथा ऑयल (दिसंबर) वायदा की कीमतों में तेजी के रुझान के साथ मिला-जुला कारोबार होने की संभावना है। मेंथा ऑयल में खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ी है जिससे कीमतों को हाल के निचले स्तरों से उबरने में मदद मिली है। मेंथा ऑयल के कम उत्पादन कारण आवक भी प्रभावित हुई है। कीमतों को 950 का समर्थन रहने की संभावना है और निकट भविष्य में कीमतें धीरे-धीरे 1010 तक बढ़ सकती है।

बाजार के मिले-जुले रुझान के कारण अरंडी वायदा (जनवरी) की कीमतों के सीमित दायरे में कारोबार करने की संभावना है। कमजोर मांग की संभावनाएं और अरंडी तेल की कम निर्यात मांग से कीमतों में नरमी रहने की संभावना है, लेकिन हाजिर बाजार में आपूर्ति की कमी से बड़ी गिरावट पर रोक लग रही है। आपूर्ति कम रहने की संभावना है क्योंकि अरंडी की नई फसल की आवक में तेजी जनवरी के बाद ही आएगी। अरंडी की कीमतों के 7200-7600 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

### सर्पाका

डॉलर में नरमी से सोने की कीमतों में सकारात्मक तेजी देखी गई, जबकि निवेशकों ने अमेरिकी मुद्रास्फीति के प्रमुख आंकड़ों और फेडरल रिजर्व द्वारा इस सप्ताह दर में वृद्धि के फैसले के लिए तैयार किया। डॉलर इंडेक्स में बिकवाली देखी गई और कमजोर डॉलर सोने को अन्य मुद्राओं वाले खरीदारों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है। जैसे ही हम इस सप्ताह की फेड की बैठक और सीपीआई आंकड़ों की ओर बढ़ेंगे, सोने की कीमतों में तेजी की वास्तविक संभावना है। कारोबारियों को अब 13-14 दिसंबर को फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक में 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की संभावना 93% है। निवेशक 13 दिसंबर को नवंबर माह के अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट पर भी नजर रखेंगे। यदि फेड अपेक्षाओं के अनुसार दर-वृद्धि की गति को धीमा करता है, साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपेक्षाकृत कम रहते हैं, तो डॉलर कमजोर हो सकता है और अचानक आप सोने के की कीमतों में तेज रफ्तार देख सकते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार शीर्ष सोने के प्रमुख उपभोक्ता चीन को अगले साल आर्थिक सुधार लाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए कोविड की सख्त नीतियों से हटने से अगले कुछ महीनों में विकास में गिरावट की संभावना होगी, क्योंकि संक्रमण बढ़ जाएगा, जिसके कारण रिकवरी वर्ष के अंत तक ही हो सकेगी। तकनीकी मोर्चे पर, कॉमेक्स पर सोना की कीमतों में तेजी का रुझान है और कीमतों में किसी भी गिरावट 1790 डॉलर के पास खरीदारी की जा सकती है जबकि 1825 डॉलर के पास रेजिस्टेंस रह सकता है। कोमेक्स में चांदी की कीमतों में भी गिरावट पर खरीदारी दिख रही है और 22.40 डॉलर के पास सपोर्ट है और 23.90 डॉलर के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह एमसीएक्स में सोने की कीमतें तेजी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती है और कीमतें 53000-55200 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चांदी की कीमतें 65000-69000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

पूरे सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में बिकवाली देखी गई क्योंकि व्यापारियों ने कनाडा-से-अमेरिका जाने वाली कच्चे तेल की पाइपलाइन के बाधित होने के बजाय वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ईंधन की मांग में कमी की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। कनाडा की टीसी एनर्जी ने कहा कि उसने अपनी 622,000 बैरल-प्रति-दिन कोस्टोन पाइपलाइन को बंद कर दिया है, जो कैनसस क्रीक में रिसाव के बाद अल्बर्टा से अमेरिकी मिडवेस्ट और गल्फ कोस्ट तक भारी कनाडाई कच्चे तेल की प्राथमिक लाइन है। आर्थिक मंदी की आशंकाओं से ऊर्जा बाजारों पर दबाव बढ़ गया है। अधिक अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना के बीच ईंधन की मांग कमजोर हो रही है, क्योंकि फेडरल रिजर्व द्वारा व्यापक रूप से अगले सप्ताह ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की उम्मीद है। महामारी शुरू होने के बाद से चीन ने बुधवार को अपने सख्त कोविड रोधी प्रतिबंधों में सबसे अधिक बदलावों का विवरण देते हुए नुकसान को सीमित करने की घोषणा की, जबकि कम से कम 20 तेल टैंकरों को रूस के काला सागर बंदरगाहों से भूमध्यसागर पार करने में देरी का सामना करना पड़ा। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद किए गए सभी बंद को अनदेखा करते हुए दशकों में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति संकट को सबसे अधिक बढ़ा दिया और तेल की कीमतों के 147 डॉलर के अपने अब तक के उच्च स्तर के करीब पहुंचने के बाद ब्रेंट और अमेरिकी कच्चे तेल दोनों की कीमतें 2022 के निचले स्तर पर पहुंच गईं। जी 7 और यूरोपीय संघ द्वारा रूसी तेल निर्यात पर नए प्रतिबंधों को लागू करने के बाद एक ब्रिटिश ट्रेजरी अधिकारी ने कहा कि पश्चिमी अधिकारियों ने टैंकर कतारों को हल करने के लिए तुर्की के अधिकारियों के साथ बातचीत की है। आने वाले सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ रिकवरी देखी जा सकती है, लेकिन मुख्य प्रवृत्ति मंदी की बनी हुई है, और कीमतें 5650-6300 के दायरे में कारोबार कर सकती है। पांच दिनों में करीब 25% की गिरावट स्वाभाविक रूप से किसी भी बाजार में अधिक बिकवाली की स्थिति होती है और नेचुरल गैस कोई अपवाद नहीं है। इस सप्ताह में कीमतें 460-520 के दायरे में कारोबार कर सकती है, जबकि कीमतों में वृद्धि पर बिकवाली रणनीति होगी।



## बेस मेटल


बेस मेटल की कीमतें तेजी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार कर सकती है क्योंकि निवेशकों को अनुमान है कि अमेरिकी ब्याज दरों में धीमी वृद्धि और चीन के कोविड-19 नियंत्रणों में ढील से दुनिया में धातु के शीर्ष उपभोक्ता में मांग को बढ़ावा मिलेगा। चीन के बैंक ऑफ क्म्युनिकेशंस ने कहा कि उसने आठ संपत्ति फर्मों, जो धातुओं के एक प्रमुख उपयोगकर्ता है, का समर्थन करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस क्षेत्र में तरलता के संकट को कम करता है। लेकिन कीमतों पर दबाव बना रह सकता है क्योंकि आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में छह महीने में पहली बार चीन के यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है, और कुछ लोगों को डर है कि कोविड नियमों में ढील देने से संक्रमण में भारी वृद्धि होगी। चीन के निर्यात और आयात को दिखाने वाले आंकड़ों में कम से कम 2-1/2 वर्षों में नवंबर में सबसे तेज गति से गिरावट के कारण बाजार पर दबाव रह सकता है। तांबे की कीमतें 690-725 के दायरे में कारोबार कर सकती है। नवंबर में चीन में तांबे का आयात इस साल किसी भी महीने की तुलना में सबसे अधिक हुआ है जो प्रतिबंधों में ढील से पहले उपभोक्ताओं द्वारा पुनः स्टॉक करने का संकेत है। गोल्डमैन सैक्स ने 2023 में तांबे की औसत कीमतों के लिए अपने पूर्वानुमान को पहले के 8,325 डॉलर से बढ़ाकर 9,750 डॉलर प्रति टन कर दिया। इसमें कहा गया है कि 2023 में तांबे के सरप्लस होने की संभावना नहीं है, और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध स्टॉक 14 वर्षों में सबसे कम हो गया है। जिंक की कीमतें 275-295 के दायरे में कारोबार कर सकती है। निरस्टार ने उत्तरी फ्रांस में अपने ऑबी ऑपरेशन में निर्धारित रखरखाव का काम पूरा कर लिया है, लेकिन बाजार की चुनौतीपूर्ण स्थितियों के कारण स्मेल्टर जिंक उत्पादन फिर से शुरू नहीं करेगा। निरस्टार ने चुनौतियों का उल्लेख नहीं किया। लैंड की कीमतें 181-193 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एल्युमीनियम की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ 205-222 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन (दिसंबर) वायदा की कीमतें 46500-48500 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

## चांदी.....औद्योगिक मांग रिकॉर्ड स्तर पर

चांदी को कीमती धातु के साथ-साथ एक औद्योगिक धातु के रूप में जाना जाता है। यह औद्योगिक उपयोग से लेकर सजावट, प्रौद्योगिकी, फोटोग्राफी और चिकित्सा तक में इस्तेमाल होने वाली सबसे बहुआयामी धातु है। कोविड-19 महामारी, जिसने वैश्विक स्तर पर चांदी की खपत के लगभग 60% हिस्सेदारी वाले औद्योगिक क्षेत्र को पंगु बना दिया था, के बीच 2020 में चांदी की कुल मांग कमजोर रही थी। लेकिन इस वर्ष व्यवसायों के फिर से शुरू होने और मौजूदा आर्थिक सुधार के कारण औद्योगिक, फोटोग्राफी, गहने और चांदी के बर्तनों में चांदी की मांग बढ़ी है। निवेश के कारण भी मांग में बढ़ोतरी हो रही है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2022 में चांदी की मांग रिकॉर्ड कुल तक पहुंचने का अनुमान है, जो औद्योगिक मांग, गहने और चांदी के बर्तनों की खरीददारी और भौतिक निवेश के लिए रिकॉर्ड मांग के कारण हुई है।

### चांदी की मांग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2022 में वैश्विक स्तर पर चांदी की मांग 1.21 बिलियन औंस के नए उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है, जो 2021 से 16% अधिक है।
- मौजूदा वाहन विद्युतीकरण, 5जी तकनीकों को अपनाने और हरित बुनियादी ढांचे के लिए सरकार की प्रतिबद्धताओं जैसे विकास कार्यों के कारण औद्योगिक मांग 539 मिलियन औंस तक बढ़ सकती है।
- वाहन निर्माता अधिक चांदी का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यह क्षेत्र कुल मांग का लगभग 5% ही है। चांदी की मांग में सोलर पैनल की हिस्सेदारी करीब 10 फीसदी है।
- 2022 में भारत में चांदी मांग लगभग दोगुनी हो गई क्योंकि खरीदारों ने 2020 और 2021 में कम कीमतों का लाभ उठाकर स्टॉक को फिर से भरने का काम किया।
- 2022 में भौतिक निवेश 18% बढ़कर 329 मिलियन औंस होने का अनुमान है, जो एक नया रिकॉर्ड भी होगा। उच्च मुद्रास्फीति, रूस-यूक्रेन युद्ध, मंदी की चिंताओं, सरकार में अविश्वास को लेकर निवेशकों के डर और कीमतों में गिरावट पर खरीदारी के कारण हुआ है।
- इसके विपरीत एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पाद की होल्डिंग में कुल 110 मिलियन औंस की सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट होने का अनुमान है, जो सोने की तुलना में चांदी की कीमतों में अधिक अस्थिरता के कारण मुनाफा वसूली के लिए अधिक संवेदनशील होने से हुआ है।
- 2022 में, खदानों से चांदी का उत्पादन साल-दर-साल 1% बढ़कर 830 मिलियन औंस होने की उम्मीद है। मेक्सिको में चांदी का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ने का अनुमान है क्योंकि हाल के वर्षों में कई प्रमुख नई चांदी परियोजनाएं शुरू हुई हैं जो पूर्ण उत्पादन दर तक बढ़ रही हैं।
- चिली में मौजूदा खदानों और नई परियोजनाओं से उप-उत्पाद के रूप में भी चांदी के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है। इस वृद्धि की आंशिक रूप से भरपायी पेरू, चीन और रूस जैसे प्रमुख चांदी उत्पादकों से कम उत्पादन के कारण होने का अनुमान है। बढ़ती मुद्रास्फीति, विशेष रूप से कच्चे तेल और नेचुरल गैस की उच्च कीमतों के कारण 2022 में खननकर्ताओं के लिए लागत पर अहम दबाव पड़ा है।



- चांदी के गहने और चांदी के बर्तन इस साल क्रमशः 29% और 72% बढ़कर 235 मिलियन औंस और 73 मिलियन औंस हो गए हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय मांग में अभूतपूर्व उछाल के कारण है। यह 2021 में भारी स्टॉक की कमी के बाद त्योहारी और शादी के मौसम से पहले भंडार को फिर से जमा करने से प्रेरित है।
- वैश्विक चांदी बाजार में इस साल लगातार दूसरी बार चांदी की कमी रहने का अनुमान है। 194 मिलियन औंस की कमी के अनुमान के साथ यह कई दशकों का उच्च स्तर होगा और 2021 में देखे गए स्तर से चार गुना अधिक होगा।

नई ऊर्जा वाहनों के उच्च विकास और सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा में निवेश से सहायता प्राप्त हरित प्रौद्योगिकियों में चल रही क्रांति, आने वाले दिनों में चांदी के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।



## एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ट्रोकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।